



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 पौष 1932 (श0)  
(सं0 पटना 9) पटना, मंगलवार, 18 जनवरी 2011

---

सं0 2/रा.न.-02/10—03/न0वि0एवं0आ0वि0

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

5 जनवरी 2011

विषय:—राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के अंतर्गत मुंगेर शहर का सीवरेज निर्माण हेतु 18789.00 लाख रू0 के परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) अंतर्गत मुंगेर शहर का सीवरेज परियोजना के निर्माण हेतु 18789.00 लाख रू0 की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 70 : 30 है।

2. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी के किनारे अवस्थित मुंगेर शहर के समेकित सीवरेज एवं ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करना है। इसकी कार्यान्वयन की समय-सीमा दिसम्बर, 2012 है।

3. इस योजना के लिए नोडल एजेंसी नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन गठित बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (BUIDCo) है।

4. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के अंतर्गत मुंगेर शहर का सीवरेज के परियोजना के निर्माण हेतु 18789.00 लाख रू0 के योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के विरुद्ध प्रथम किस्त की राशि मुंगेर शहर के लिए 2000.00 लाख रू0 (बीस करोड़ रू0 मात्र) विमुक्त की गई है।

5. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के अंतर्गत मुंगेर शहर का सीवरेज की परियोजना के निर्माण हेतु 18789.00 लाख रु० योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डी० के० शुक्ला,

सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 9-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>